रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05



# the Gazette of India

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 21—मई 27, 2011 (वैशाख 31, 1933) No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21—MAY 27, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

# भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2011

सं. ई-III/18(6)/08/टीएन/छूट/निरस्तीकारेप--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा कर्मचारी ध्विष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (अ) के अंतगत अधिसूचना संख्या उप क्षे. का. 3416 दिनांक 26.10.1957 द्वारा मैसर्स बी. एण्ड सी. मिल्स लि., टीएन/29 जिसका पंजीकृत कार्यालय 106, आर्मीनियन स्ट्रीट, चैन्नै-600001 में स्थित है, मेरे समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पर्याप्त कारणों से, जो मैं उचित समझता हूं, को प्रदत्त छूट दिनांक 31.08.2007 से निरस्त करता हूं।

> एस. चटर्जी केन्द्रीय भविष्य निषि, आयुक्त

#### नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 2010

## का.रा.बी. निगम(भर्ती)विनियम, 2010 ग्रुप 'ग' (परा-चिकित्सा) पद

सं. ए-12(11)1/2008-चि.4(आर.आर.-पी.एम.)--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड (21) और धारा 17 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा इस विषय पर पूर्व सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से रह गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा ग्रुप 'ग' परा चिकित्सा पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित भर्ती विनियम बनाता है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--
  - (i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 कहे जायेंगे।
  - (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :--
  - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि :--

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरहर्ता :---

ऐसा कोई व्यक्ति :--

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है : अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

5. स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति :--

स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा तीन सदस्यी समिति के गठन द्वारा की जाएगी जिसमें संबंधित अस्पताल के अपर निदेशक/उप चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक पद का अध्यक्ष होगा।

6. ढील देने की शक्ति :--

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं।

7. अवशिष्ट मामले :--

इन विनियमों के उपबंधों के शर्ताधीन, निगम में पदों के तदनुरूपी वर्ग के लिए लागू सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

8. अपवाद :--

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

> सी. एस. केदार महानिदेशक

3302

-

# भारत का राजपत्र, मई 21, 2011 (वैशाख 31, 1933)

		_		_			-	-															-				 																				-
1	1000	Ĕ	जिनम भता करते व्यस्त		. *		स परामदा	किया आना ह			14	ताणू नही										,									~ +-							••				.'					
-	+					i						अपर निदेशक/उप चिकित्सा	अधीक्षक/रिविक्तमा अधीक्षक-	भस्यताल		देशक/	उप निदेशक/सहायक निदेशक		आधिकारो		1		(1)11111111111111111						,	*****					•••												
يىك كىسابىر بىرامان سامان كالم كالم تتقيير										and the second se		ı	आधी सक/गि	क. रा. वी. अस्पताल		•	उप निदेशत		द - चिकिस्सा		Frederic	the manual															•	د. بر		ŗ			•				
ALC:		Ę		,							_	BILLIN				सटस्य			सदस्द					•	• 							•												_			
प्रतेषति /		uni-gan/	अगमलन द्वारा मता क मामल म त्रे ग्रेड निज्यमें के गटोजनि		אונוובלופנין אובטיר וממו						12	मीट्क पास के लिए छह वर्ष की	सेवा तथा गर मोट्क पास के		वाले नरिंग अर्दली/स्ट्रेंचर	बाहक/परिचर	•	िटिप्पणी : ज़हाँ पदोन्नति के लिए	अपनी अंदेक अथवा पात्रता	सेवा परी कर चके कनिष्ठों पर	भी विचार किया आ उस ह							ਦੀ ਲਾਜ ਤ हੀ ਨਾਖ਼ਾ 3-ਦੀਤੇ ਏਦੀ	अहंक या पात्रता संवा प्रत्ने ही			पदोर्चति के लिए आपनी	परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक	पूरी कर ली हो।	1	•	•										
und with unselfs - went	4		अथवा पदामात द्वारा भगना पनिनितानिक/	The rate cardine		יאנואו אייניוטרא צוגוא	۲	राकेलया क	प्रतिशतता '		11	पटोचीते	जिसके न होने पर	सीधी भती द्वारा													a see a set of the second s		•																and the second sec		
	+-		aand,		2 4 G		-				ç.	सीटा	iti He	ti E	वर्ष											,								- <u>-</u> *		:											
marr aftern 1	1		ात्मर विहित आजा थीन			1	पदाचता क		लागू होंगी		<b>o</b>	लगा नही					courde i travi																														
abert auff in the southers		शाक्षक आर अन्य अहताए						-			80	सर्दांधत क्षेत्र में मान्यता	प्राप्त/पंजीवृत्त अस्पताल से	एक वर्ष के अनुभव के साथ	मान्यता प्राप्त होई से वरिष्ठ	माध्यमिक/10+2 अयवा	समतुल्य अहता /	•••										A 1 A MARKET THE AS MALE AND AND A MARKET MARKET THE			· · ·					•					¥.	-	:		Made a second seco	-	
Mell and & Part	1	आर्यु सामा							,		7	27 वर्ष से अनचिक	(मरकारी कर्मचारियों	कर्मचारी राज्य बीमा	निगम के कर्मचारियों	मामले में 37 वर्ष लक	की दील)										•																t			•	
		रसावल सवा	(परान) विमान 1077			BI GALIA	सेवा के जोई	मार्य वर्षा का	लाभ स्वीकार्य	tic	9	लागू नही															•			,		•									v						
		वतन	42 F	1920	H H	- FUR-					5	# <del>1</del>	चयन																												,						
	Ţ		वेतनमान								4	वेतन बेंड-1	5200-20200/-	रु. ग्रेड वेतन-	2000/- रि.																													,	And a second sec		
1	aril@ <u< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>,</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>e</th><th>ह्य म</th><th><u> </u></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>•</th><th></th><th>•</th><th></th><th></th><th>-</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></u<>					,					e	ह्य म	<u> </u>																			•		•			-										
	पद की संख्या							•		:	2	▲0 *(2008) •	*कार्यभार के	आगार पर		h	-								*		 									•								-			
	पद का नाम	-	 - •								-		P-15					• •									 									+			1 1		<u></u>		<del>.,</del>		-		

.\*

• .'

भाग III—खण्ड 4]

## भारत का राजपत्र, मई 21, 2011 (वैशाख 31, 1933)

		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-20-				-		3				104		-	
		वेतनमान	tt	Ħ			+	तिमय विदित	त अवधि,	┢─	AC.	आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में				
				नियम, 1972					4		Partier/	के सेन फिलमें के परोचकि				1
			4					al Dem	1.11		andress and all a	uffenfer ander fern				
			+	-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4				- free		-		L				
			5						4			0.61				
		+	t			:	   	i	6 9					•	-	
									Ŧ	וגופרונו	ē				-	किया आना हे
				লাম ম্বাকাথ +	-	-	<u>.</u>	लागू हागा	,	עומצוממו						
			-													
2	6	4	10	8		٦		<b>6</b>	9		11	12		13		
274 * (2008)	म्राय न	(art Es1,	ŧ	लागू नही	27 वर्ष से अनिधिक		प्राप्त/पंजीकृत	12H	साय	100% पर	पदोत्रति दारा	िन्मी एक अथवा दोनो ग्रेडों में	अच्यक्ष	- अपर निदेशक/उप चिकित्सा	चिकित्सा	लग नहा
46	अतिपिक्त्र्यांचि	5200-20200/-	चयन		(सरकारी कर्मचारियों	¥F.			ਸ਼ੁੰਦ	के जिसके न	日代日	याँच वर्ष की नियमित सेवा वाले	** ****	अयीक्षक/चकिस्सा अयीक्षक-	आयीसक-	
ידוגעווע מל		रु. ग्रेड वेतन-	•		तथा कर्मचारी राज्य	अनुभव के साथ				दो   सीधी भर्ती द्वारा	द्वारा	सी. रस. आर. सहायक/ऑपरेशन		क.स.बी. अस्पताल	÷	
		2400/- 75.			बीमा निगम के	प्रात बोर्ड स	से बरिष्ठ		a,		_	धियेटर सहायक से पदोन्नति ।				
menta et					कर्मारारे मामले मे	माध्यमिक/10+2							46.42	- संयक्त निदेशक/	÷	
-					37 वर्ष तक की दील)	समत्तन्य अर्हता ।						रिप्पणी : जहाँ पदोमति के लिए		रा निरेशक/सहायक निरेशक	र निटेशक	
						>	- 14		•		-	अपनी आहेक आधान पानित				
											-			2	6	
		_									-		<b>HCH</b> C	- चिकिस्सा	आवकारा	
												मा विषया किया आ रहा है,		अधिमान्त:	संबंधित	
												उनके वरिष्ठों की पटोमति पर		विडोपहरा से (केन्ट्रीय/राज्य	Proventing	
												यो विसार किया आणा वडावे	•			
						÷						की उनकी ज्योंकित जांकि य	• ••		fun n	1
									ч. так 1			पाचना सेता हेकी फाँगि रा				
									/				••••••			
				;								क किन्द्र अपने कानका क				
												הפובוני כט וכוה את-ו				
								•			1	पार्रवाका अवाध सफलतापुर्वक				
					And the second se			•				प्री कर ली हो।				
				and the second se												
	,															
	:	•				:	;		: 				•	•		
	1						1		:							
					a press and remain an and the set of the set of	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
									•							
		•								-						
								•								
	_		-	-		-	-		-	~			-		-	

र्व परिष्टिकतियां	में सर्वा में सम्बद्ध	ा आदीग उभादीग	से परामर्थ किया जाना है		14	लागू नही							- - -															 	
यदि विभागीय पदोन्नति समिति हैं तो उसका   वे ग्रहन	Chart	संव			13	-	अपीक्षक/चिकित्सा अपीक्षक- इ. म. झे. समातल	12022001000	संयुक्त निदेशक/	א ואבצום/ אנימס ואנצום	सिकिस्मा भरिकारी	6	मे किन्ही	सरकार से बाहरी नामिती)												 		 -	• .
যহি হিদাসীয ব মচন						अध्यक्ष - 3	(*) R		सदस्य - न				, q												 		 		
पद्योमति/ प्रतिनियक्तिन/	आमेलन द्वारा भतीं के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोझति,	प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया आध्या			12	किसी एक अथवा दोनों ग्रेडों में	पॉन वर्ष की नियमित सेवा वाले मी एम थार जन्मनिकान	ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन	से पदोन्नति ।	रियाणी - जब्दँ प्रदोबति के लिप	अपनी अर्हक अथवा पात्रता	सेवा परी कर चके कनिकों पर	भी विचार किया आ रहा है.	उनके बरिष्ठों की पदोन्नति पर	भी विचार किया आध्या बसलें	की उनकी अपेकित अर्हक या	पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या	पात्रता सेवा के आपे से अधिक	अयवादो वर्ष, जो भी कम हो,	से कम न हो लया उन्होंने ऐसी	अहंक या पात्रता सेवा पहले ही	पूरी कर चुके अपने कनिकों के	E d	पदामात क लिए अपना 	भूरा कर ला हा।				
भर्ती की पद्धति - क्या सीधी भर्ती हाथ	अथवा पदोष्टति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/	आमेलन हारा और विभिन्न पद्धतियों हारा	भरे जाने वाली रिक्लियों की		11	100% पदोवति द्वारा													,										
परिवीक्षा क्वी		कोई है			10	लाग नही									-						1				 				
क्या सीधी भर्ती वालों के	लिए विहित आद्र अंदि	सीक्षिक अर्हतताएं	पटोकरों के मामले में धी		6	नही	•														•								
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित सीक्षक और अन्य आर्टताए				•	8	लागू नहो																							
सीधी भर्ती के लिए आप्यू सीमा				-	7	े लागू नही													-				-						
रुपा केन्द्रीय सिक्ति सेवा	(पॅश्वान) नियम, 1972	के नियम 30 के अधीन	सेवा के आहे गरे वर्षों का.	लाभ स्वीकार्य हे	8	लागू नहीं																`							
	पत है। अधवा			: : :		- <del>1</del> 14	ਰਧਤ																		 	 	 	 	
वेतन बीड और बेड वेतन/	देतनमान			-	4	(वेतन बेड-1,	5200-20200/-	वतन-2800/-	ĸ						:												 	 	
বর্ধীক্রংতা		+			e	यूव म	अलिपिकवर्गीय								-												 		
पद की संख्या					2	4 *(2008)	, ۴	आयार ५२ संख्या मे	परिवर्तन हो	HOATE						•								:	 		 		
पद का ना'						Alber		विसक्रमण म्ह	तकनीशियन		•													1					

भाग III—खण्ड 4]

## भारत का राजपत्र, मई 21, 2011 (वैशाख 31, 1933)

ब परिस्वतित्वां	Brand with	सन्ध तम्प् संघ तोव		हो परामार्थ	किया आना है		14	लाम नही	\$								•							 								2	 			
બાલ ાવમાયાય પહોંચાલ સામાત દ તા <b>ડેસ</b> જા 10ન							13	- अपर निर्देशक/उप चिकित्सा	अघीड्यक/चिकित्सा अघीड्यक-	क. रा. बी. अस्पताल		- संयुक्त निदेशक/	उप निदेशक/सहायक निदेशक		- चिकिस्सा अधिकारी	अधिमानतः संबंधित	विश्वेषड्रता से (केन्द्रीय/राज्य	सरकार से बाहरी नामिती)							the second se											
पाव । वभा • गठन								<b>HEATER</b>				सदस्य			सदस्य							•		 			•;-						 	<u></u>		
म्बासार/ प्रतिनियुक्तित/	आमेलन द्वारा घली के मामले में २. २. ठ. ट. २. ०. ०.	व ग्रंड ाजनम स पदाझात, प्रतिनियक्ति, आमेलन किया	आएग		A DESCRIPTION OF A DESC		12	किसी एक अथवा दोनों ग्रेडों मे	छह वर्ष की नियमित-सेवा के	साध वरिष्ठ ऑपरेशन धियेटर	तकनीशियन/वरिष्ठ केन्द्रीय	विसंक्रमण कथ स्क्र-गिशियन से	यदोवति ।		टिप्पणी : जहाँ पदोवति के लिए	अपनी अर्हक अधवा पात्रता	सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर	भी विचार किया जा पता है,	उनके बरिष्ठों की पदोसति पर	मी विद्यार किंदा आएगा बशर्त	की उनकी अपेक्षित अर्हक या	पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या	पात्रता सेवा के आवे से आधिक	से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी	अहेक या पात्रता सेवा पहले हो।	पूरी कर चुके अपने कॉनेफो के		पदामात को लिए अपना	पारवाक्षा अवाद्य सफलतापूर्वक	पूरी कर लो हो।	·					
सीयी मर्ती हारा	अथवा पदीचति द्वारा	अयवा प्रातानचुाक्त/ आमेलन हारा और	2	R 在	रिक्तियाँ की	- प्रतिशततः	11	100% पदोननि द्वारा																												
10	अवहि,	याद कोई है					10	लागू नही		•																					-					
ju	त्मिर विदित	জাণু আৰ হাঞ্জিক		1	मामले में भी	लागू होंगी	6	लागू नहीं	ſ						2			•			-															•
होथिक और अन्य अर्हताएं		-					60	लागू नहीं	2		•	•						-													· · ·					
आयु सीमा							7	लागू नहां	-	-																										
सुव		नियम, 19/2 के नियम 30	के अधीन	2015 16 101	मते वर्षों का	त्नाम स्वीकार्य हे	9	ताम् नहीं	1						~~~																					
	8	14 A	चयन	믭			5	¥ <del>I</del>	चयन																	** -	•						 	-		
मेड वेलन/	वेलनमान						4	(वेतान बेंड2.	9300-34800/75	13 drif-1200/-	4									<i>)</i> ,														•.		
				•			3	छप न	alafumanita																								 •			
1720 H H 12 2/ )							2	ame) * ca	*****	माभार पर		'n	सकता है।						,														 		-	
पट की नाम '						•				ומוושט	אונועסיןאוע אייד	रसान जिन्होन्टर/	A flu	त्रमंकमण तिमंकमण	and for	Permi/	- Charles	erana Fraimuu		lix n		4				•		:	;			, : }	 			

Rouch : ang then Rouch : arrant grint of the relation of the structure of
भागतम् जुभूषम् अभूषम् अभ्यासम् अभ्यासम् अभूषम् अभूषम् अभूषम् अभूषम् अभूषम् अभूषम् अभूषम् भूषम् अभूषम् अभूषम् अभूषम् अभूषम् अभूषम्

3306 -----

,

[भाग III—खण्ड 4

÷

10.5

भाग III—खण्ड 4]

----

## भारत का राजपत्र, मई 21, 2011 (वैशाख 31, 1933)

$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	а стана	भ में भ म में भी			साथा मता ७ १९९८ जनाक्स - संविधक और अन्य अर्हताह		=	सीयी मती हारा समया प्रतेषीर हारा	भदामात/ प्रतिनिचुकित/	ଧାର ବେଖାଏନସ ଏଯାକାର ଲାଖାର ह ରା <b>ଅଲ୍ଡା</b> ୧୧୦୦-		-
Note:   Note: <th< th=""><th><b>कि</b>तममान <b>28</b> (2006) स्वार्यमार के आतिपिक्वतांगिय संख्या में सरकना है। सरकना है। सरकना है। सरकना है।</th><th></th><th>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Ē</th><th>5</th><th></th></th<>	<b>कि</b> तममान <b>28</b> (2006) स्वार्यमार के आतिपिक्वतांगिय संख्या में सरकना है। सरकना है। सरकना है। सरकना है।		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							Ē	5	
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	3 4   3 3 4   3 3 4   3 3 4   3 3 4   3 3 4   3 3 4   3 3 4   3 4 4   3 4 4   3 4 4   4 3 4   4 3 4   4 4 4   4 4 4   4 4 4   4 4 4   4 5 4   4 5 4   4 5 4   4 5 4   4 5 4   4 5 4   4 5 4   4 5 4   4 5 4   4 5 4   4 5 4   5 5 5   6 5 5   7 5 5   6 5 5   7 5 5	8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	मेयम, 1972 15 नियम 30 15 अधीन संवत्त के आई लाभ सौकार्य है			atte		1/14 1/14/97 10/06/0				
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	3 4   3 3 4   3 3 4   * andur 4 4   * andur 4 4   * and 4 5   * and 5 5   * a		ज निवस थे ज अधीन संवा क आंधे जाम स्वी का			ŝ		अथवा प्रतिनियुक्ति/	वे देड जिनमें से पदोसति,			
11under the materialasset the materialasset the materialasset the materialasset the materialasset the materialasset the materialasset the materialasset the materialasset the materialasset the materialasset the the materialasset the materialasset the the materialasset the the materialasset the the the materialasset the 	1 3 4   3 3 4   3 3 4   3 3 4   3 3 4   3 4 5   3 3 5   3 3 5   3 3 5   3 3 5   4 3 5   3 4 5   4 3 5   4 3 5   4 3 5   4 3 5   4 3 5   4 3 5   4 3 5   4 3 5   4 3 5   4 3 5   4 3 5   4 3 5   5 5 5   5 5 5   6 5 5   7 5 5   7 5 5   7 5 5   7 5 5   7 5 5   7 5 5   7 5   7 </td <td></td> <td>ह अधान सेवा के ओड़े लाम स्वीकार्य है</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>आमेलन हारा और</td> <td>प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया</td> <td></td> <td>संघ</td> <td></td>		ह अधान सेवा के ओड़े लाम स्वीकार्य है				+	आमेलन हारा और	प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया		संघ	
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	न     2     3     4       न     38     (2006)     पुप ग     854-4       *andunx     के आर्ग्याख्यमीय     3     86-1.     86-1.       गापा     प     अतिप्रिख्यमीय     2     2     3       गापा     प     सेतन     8     8     8       गापा     प     से स	B N N T E	स्वाक आह सरे वर्षों का ताम स्वीकार्य श्र			आदितार		विषित्र पद्धतियां हारा	SHEAT			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 2 3 4   3 3 3 3 4   3 3 3 3 4   3 3 3 3 4   3 3 3 3 4   3 3 3 3 4   3 3 3 4 3   3 4 3 3 4   3 4 4 3 3   4 4 4 4 3   4 4 4 4 3   4 4 4 4 3   4 4 4 4 3   4 4 4 4 4   4 4 4 4 4   4 4 4 4 4   4 4 4 4 4   5 4 4 4 4   4 4 4 4 4   5 4 4 4 4   4 4 4 4 4	w 부 타	स्य बना का नाम स्वीकार्य है			.,		t			10	से परामर्श
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	स 2 3 4   38<*(2006)	्ययम् २०							the property sector of the sec		đế.	किया जाना हे
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 2 3 4   38<*(2006)	1 1 1			•			אוטבוטטו		1		
$ \begin{array}{cccccc} 1 & 3 & (2003) & (2014) & (2114) & 3 & 300 (2014) & (2114) & 300 (2114) & (2114)$	स 38 ° (2006) ग़ुप म *कार्यभार के अतितिक्वत्रमीय केंद्र मचन संख्या मे सकता है। सकता है। ने ने निन्न 24	- NO 1	 9	7	8	a	¢.	11	ç	;		
The formula of the f	ав (смов) ву - вы (смов) ву - вы (смов) ву - вы смов - ессо - ес	1 • NO	$\uparrow$	07 तर्ष में भारतिक	1	+	+ ?]				-+	Ŧ
Test autor, it is autor, it is autor, it is the interval transit (theory is autor, it is autor, it autor, it	तिन अग्रधार संख्या संख्या संख्या ह	1		र, पर ५, जनायथ (सरकारी कर्मनारियों	/t *	-	L L L		אטריייש אמפו כו-יו עבו א	•	-	लागू नहा
$\frac{1}{12} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} $		1		समा कर्यनाठी राज्य	forder de and de arrente					Haiden along	-anista-	
1 <td>F 16</td> <td>1</td> <td></td> <td>, and</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>क. रा. बा. अस्पताल</td> <td></td> <td></td>	F 16	1		, and						क. रा. बा. अस्पताल		
	ī.								רוא מסורוע אות משים שו			
					F	-			- ו-ומואנו אמו שי אוצ אועלדו	٠		
अवत समतुत्य तिकाला उन्हों वयोगरिक तिष्ठ स्वत्त प्रदेन अवन पास्तत संत प्रति अवन पास्त संत प्रति का व्यत्त के संत तिवा जाता ब्लान संत स्व तिवा जाता ब्लान संत स्व तिवा जाता ब्लान संत त्य संत संत संत त्य संत संत त्य संत				+-						उप निदेशक/सहायद	5 4429105	
रिष्ण्णा: जहां पद्योताते के लिए अपनी अर्गक अध्यता पास्त सेता पूरी कर पुर्व क्वलिता पास्त से विष्णार किया जारता है, उनके वरिष्ठां की पद्यासति प से तिषार किया जारता है, मं तिषार किया जारता है, मं तिषार किया जारता है, मं तिषार किया जारता है, मं तिषार किया जारता है, संह या पासता सेता पहले ही संह या पासता सेता पहले ही संत आ जाती सरकरतान्तुर्क पूरी कर सी हो।				(L)	अथवा समतुत्त्य				विसकमण कक्ष से पदोझति।	•		
टिप्पणी : जहां पदोम्चति के लिए अपनी आहंक अस्वमा पाक्षता नेता पूरी कर पूरीक कनिष्ठां पर में तियार किया जा प्रदा है, उनके विरास हित्या जास्ता बन्दा की जन्मते अपीक्षा आहंक या पाल्ला तेता है की अपीक्षा आहंक आखा थे ते जा पहुने की संह वा पालला तेता पहुने है प्रदी कर पुठे अपने कनिष्ठों के साथ अपने के लिए अपने परीक्षा अत्वरि सफलतापुर्व पूरी कर ती हो।										Габиски	यभित्तारी	
अपनी अर्दछ अवना पात्रता सेना पूरी कर पूरेक जनिर्खा पर उनके बरीरचां की प्रदोगकी पर में विजार किया आस्ता बस्त की उनकी अपीका आहेक प्रा मंत्रता सेता सेती अर्दक पा मात्रता तेना सेती अर्दक पा मात्रता तेना सेती अर्दन प्रा संख आपते के तिष्ट अपने जनिर्धा के परितीका उनकी सरकतान्मुर्क प्रतीकर सी हो।									रियाणी : आही पहोचनि के लिए			
भागा भूति का पूरी कर पुत्र का भागा में दियार दिया जा रहा है, में दियार किया जा रहा है, में तियार किया जारता है, में उनकी अपीका आदंक या गजता सेता हे जारी में आदिक गजता सेता के जारी में आदिक अद्याता से ता प्राया न्हों है से संक न ते ति जाता ने में ति प्रतिका अपने में ति अपने परितीका अपने मर्फ्स है। प्रतिका अपने मर्फ्स है।											40.00	
सता पूरी कर पुरुष कानेल्छी पर भी विचार किया आ रहा है, उनके अरोकित अर्हक या साला सेता हैनी अर्हक या साला सेता हैनी अर्हक या साला सेता हैने अर्ही के अर्हि स्तुति कर पुरे अपने कनिष्ठों है साला अपने ते रोक अपने विनिर्धों है पुरी कर सी हो। पुरी कर सी हो।									הייון אניסו אבופו הוצטו	विश्वेषक्रता से (केन	द्वाय/राज्य	
									सेवा पूरी कर चुके कानेफी पर	सरकार से बाहरी नामिती)	मिती)	ì
					-				मी विचार किया आ रहा है,			
			•						उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर			
									मी विचार किया आएगा बसार्त			
									की उनकी अपेकित आहेक या			
							÷					
a set a con set i form					1							•
atio units in the annih in									से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी			
राते कर पुरे आने बनियों के साल उसले उस्ते बनियों के साल उसले उस्ते में स्थान प्रतिक्षा उसके सब्द में में प्रतिक्षा उसके सल्लतानुर्वक									अर्दन या पात्रता लेवा पालो हो			
साव जाते उच्च ग्रेड सं प्रतिक्रा उच्च ग्रेड सं प्रतिक्रा उच्च ग्रेड सं प्रतिक्रा उच्च ग्रेड सं राति वा राती हो। स्वित्र सरस्ततानुर्वेड संस		-							परी कर घठे अपने कनिष्ठों के			
			-									
									प्रधामात क रलष्ट अपना			
									यरिवीका अवधि सफलतापूर्वक			
				• • •			•		पूरी कर ली हो।			
			,-									
						<u> </u>		-			-	
				-								
								-			<b>L</b>	
										•		
			•			•					<u> </u>	

٠,

## भारत का राजपत्र, मई 21, 2011 (वैशाख 31, 1933)

[भाग III—खण्ड 4

ł

व परिस्थितिया			सेवा आयोच	से परामर्थ	किया आना है			14	लाग नही	+												 		 			 			 		
याद्र विभागाय पदाचाल सामात हे तो उसका गठन						- <del>1</del> -	•	13	अध्यक्ष - अपर निवेशक/उप-धिकरसा	अचीक्षक/चिकित्सा अयीक्षक-	क. स. बी. अस्पताल		सदस्य - संयुक्त निदेशक/	उप निदंशक/सहायक निदंशक	4	 अधिमानतः सबोधत	विशेषडता से (केन्द्रीय/राज्य	सरकार से बाहरी नामिती)		-			a second and									
पद्यमाल/ प्रसिनियुक्ति/	आमेलन द्वारा घलीं के मामले में	वे ग्रेड जिनमे से पटोमलि, लविन्यितिन आयेजन किल्ल	SIRTI		A REAL PROPERTY AND A REAL			12	किसी एक अथवा दोनों ग्रेडों में	पाँच वर्ष की सेवा के साध	ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन	/केद्रीय विसंक्रमण अनुसंघान	तकनाशियन से पदांचीत ।	Burnh - and mitally it fam		सवा पूरा कर चुक कानको पर	भी विचार किया आ रहा है,	उनके वरिष्ठी की पदोन्नति पर	भी विचार किया आरमा बशते	को उनको अपोक्षित अहेक या	ਪਾੜਨਾ ਜਾਗ ਦਜਾ ਤਸਨ 50 ਪ।			Ĕ q								
मता का पद्धत - क्या सीची मती द्वारा	अधवा पदोन्नति द्वारा	अथवा प्रतिनियुक्ति/ यावेलन साल थोन	विभिन्न पद्धलियों हारा	1	रिक्तियां की	प्रतिश्वतता	-	11	पदोर्धनि द्वारा 100%													 	 									
90 T	आवदि,	ala Mét						10	लागू नहीं	;						 																
मली वालों के	¢≃	आयु आर जैतिक	आहताएं		मामले में भी	लामू होंगी		6	लागू नहीं													 	 									
ताया भता क ालट अपाक्तत सौतितक और अन्य अर्हताएं				and a substantian state and and a substantian designments				8	लागू नही										:													
जाया मता छ। लाह आयु सीमा								7	लागू नहीं	-	-																					-
सिविल सेवा सिविल सेवा	(पेशान)	ानवम, 1972 के नियम 30	म अधीन	简相目	गर्द्य वर्षी का	लाम स्वीकार्य		9	लागू नही													 	 				 			 		-
चयन	पद है। तद	94201 14	चयन	ų				S	ŧ	चयन									,					 	 					 		_
वतन बड आर मेड वेतन्।	देलनमान							4	वेतन बेंड-1,	ĝ.	ਸ਼ੇਤ ਰੋਨਜ-	2800/- 판.									-									-		
in Staline								e	मुप ना	<u> </u>													 	 						 		•
: तद की सख्या								2	07 *(2008)	*कार्यभार के	1	1	परिवर्तन हो	सकरता ह		 									 	40				 		
पद का नाम								-	बरिष्ठ	ऑपरेशन	धियेटर	तकनीशियन-								•							 	•	••		•	

#### ESIC (RECRUITMENT) REGULATIONS, 2010 GROUPC (PARA-MEDICAL) POSTS

No. A-12(11)1/2008-Med.-IV(RR-PM)—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 97 read with clause (xxi) the Sub-section 2 of the said Section and Sub-section (2) of Section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of all previous notification on this subject, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following Recruitment Regulations regulating the method of recruitment to the Group 'C' Nursing Cadre/Posts namely :—

- 1. Short title and Commencement :---
  - (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Nursing cadres/Posts), Recruitment Regulations, 2010.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Offical Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay :---

The number of the said post, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters etc :---

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 5 to 13 of the said schedule.

- 4. Disqualification-No person :----
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Confirmation DPC :---

Confirmation DPC shall be done by the concerned appointing authorities by constituting a Committee of three members including the Chairman of the rank of additional Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent of respective hospitals.

6. Power to relax :----

Where the Director General of the corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Residuary matters :---

Subject to the provisions of these regulations, all Regulations and instructions applicable to the corresponding category of posts in the Corporation shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these Regulations.

8. Savings :---

Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

C. S. KEDAR Director General

Name of the post	Number of posts	Classifications	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension)Rules, 172	Age limit for direct Recruitment	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment
an san a se							
I	2	3	4	5	6	7	8
9.CSR Assistant	40*(2008) *Subject to variation depending upon workload.	Group-"C" Non- Ministerial	Pay Band -1 Rs 5200- 20200 Grade Pay -2000)	Non Selection	Not Applicable	Not exceeding 27 Years (relaxable upto 37 years in case of Government Servant and Employees of ESI Corporation)	Sr. Secondary/10+2 or equivalent qualification from a recognized Board with one year experience in the relevant field from a recognized/registered hospital.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct Recruitment will apply in the case of promotees	Penod of Probation if any	Method of Recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/abs orption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of Recruitment by promotion/deputation/a bsorption grade from which promotion, deputation; absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
9	10	11	12	13	14
Not Applicable	Two Years for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	Nursing Orderly/Stretcher Bearet/Attendant having six years regular service for matriculates and eight years regular service for non matriculates, Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion,	Chairman-Additional Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-EST Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer- preferably from specialty concerned (outside	Not Applicable
· · · · · ·		-	consuterea for promution, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the wext higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	nominee from Central/State Government)	

Name of the post	Numb <del>er</del> of posts	Classifications	Pay Baod and Grade Pay /Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit o added years of service admissible under Rule 30 of CCS	direct Recruitment	Educational and other qualifications required for Dire Recruitment
		•		: 	(Pension)Rules, 172		• 
ъ.	•	•	~			1	1
					•		
1	2	3	4	5	6	7	8
10. CSR Technician	23*(2008) *Subject to variation depending	Group-"C" Non- Ministerial	Pay Band -1 Rs 5200- 20200 Grade Pay 2400	Non Selection	Not Applicable	Not exceeding 27 Years (retaxable upto 37 years in case of	Sr. Secondary/10+2 or equival qualification from a recognize Board with Three years experience in CSR of a
	• upon workload.		•			Government Servant and Employees of ESI Corporation)	recognized/registered hospital
	:	ļ		1 			<u> </u>
Whether age	Period of Probation if	Method of Recruitment	In case of Recruitr			curnstances in ich Union Public	
educational qualifications prescribed for direct Recruitment	any	whether by direct Recruitment or by promotion or by	promotion/deputat bsorption grade fro which promotion, deputation, absorp to be made	ion/a exists who om compositi	at is its Sei on to	vice Commission be consulted in king Recruitment	
will apply in the case of promotees		deputation/abs orption and percentage of vacancies to be filled up by		•			
		various methods					•
9	10	11	12	. 13	14		
No	Two Years for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct	Promotion from C Assistant/O.T. Assistant with fiv years regular servi	Director/I Superinte	Dy. Medical ndent/Medical	t Applicable	
		Recruitment	either or both grad Note : Where junior have completed their qualifying or eligibit service are being	s who Member-	Joint Director tor/Assistant		
			considered for prom their seniors would be considered provid they are not short of	also preferably ied concerned	Medical Officer from specialty (outside		•
			requisite qualifying eligibility service by than half of such qualifying or eligibil service or two years,	more Central/S Governm	tate	-	
			whichever is less, an have successfully completed their prot period for promotion the next higher grad	nd bation n to			
			along with their jun who have already completed such qualifying or eligible service.	ior <del>s</del>			

19—79 GI/2011

3367

Name of the post	Number of posts	Classifications	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension)Rules, 172	Age limit for direct Recruitment	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
11. SR. CSR Technician	4 *(2008) *Subject to variation depending upon workload.	Group-"C" Non- Ministerial	Pay Band -1 Rs 5200- 20200 Grade Pay 2800	Non Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of Recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/abs orption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of Recruitment by promotion/deputation/ absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
9 No	10 Not Applicable	11 100% by Promotion	12 Promotion from CSR Technician /O T. Technician having five years regular service in either or both grades. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion. their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service	13 Chairman-Additional Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/ Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specially concerned (outside nominee from Central/State Government)	14 Not Applicable

\_

Name of the post i	Number of posts	Classifications	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension)Rules, 172	Age limit for direct Recruitment	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
8. STA (O.T/CSSD/CS R)	03 *(2008) *Subject to variation depending upon	Group-"C" Non- Ministerial	Pay Band-2 Rs 9300-34800 Grade Pay - 4200)	Non Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of Recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/abs orption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of Recruitment by promotion/deputation/a bsorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
9 Applicable	10 Not Applicable	11 100% by Promotion	12 Promotion from Sr O T. Technician /Sr. CSR Technician with six years regular service in either or both grades Note Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already	13 Chairman-Additional Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital Member-Joint Director /Dy. Director/ Assistant Director/ Assistant Direct	Not Applicable

	Name of the	Number of	Classifications	Pay Band and	Whether	Whether benefit of	A mark that the first	
					the second s		Age limit for	Educational and other
	post	posts		Grade Pay /Pay Scale	Selection post or non- selection post	added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension)Rules, 172	direct Recruitment	qualifications required for Direct Recruitment
ĺ	1	2	3	4	5	6	7	8
	5. O.T. Assistant	74*(2008) *Subject to variation depending upon workload.	Group-°C" Non- Ministerial	Pay Band -1, Rs 5200- 20200 Grade Pay-2000)	Non-Selection	Not Applicable	Not exceeding 32 Years (relaxable upto 37 years in case of Government . Servant and Employees of ES1 Corporation) Note: The crucial	Senior Secondary/10+2 with Science or equivalent qualification from a recognized Board with one Year exerience. in O.T. of a recognized Hospital Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.
							date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam,	Note 2 : The qualifications(s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Meghalaya, Arunachāl Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba, District of Hilmachal Pradesh, Andaman and	possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. (in case of direct Recruitment)
							Nicobar Islands or Lakshadeep)	
	6. O.T. Technician	38*(2008) *Subject to Variation depending upon workload.	Group-"C" Non- Ministerial	Pay Band-1, Rs 5200- 20200 Grade Pay - 2400	Non-Selection	Not Applicable	Not exceeding 27 Years (relaxable upto 37 years in case of Government Servant and	Senior Secondary/10+2 with Science or equivalent qualification from a recognized Board with five Years experience in O.T. of a recognized /registered Hospital
							Employees of ESI Corporation)	
-+				   				
			· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
a summarization and the same wavever the			•					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
reader								

## PART III-SEC. 4]

## THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

33	7	1
----	---	---

		······			
Whether age	Period of	Method of	In case of Recruitment	If a Departmental	Circumstances in
and	Probation if	Recruitment	by	Promotion Committee	which Union Public
educational	any	whether by	promotion/deputation/a		Service Commission
qualifications		direct			1 1
prescribed for		Recruitment or	bsorption grade from	composition	to be consulted in
direct			which promotion.		making Recruitment
		by promotion	deputation, absorption		
Recruitment		or by	to be made		
will apply in		deputation/abs	\$		
the case of		orption and			
promotees	1	percentage of	1		1 1
	ł	vacancies to be			
	1	filled up by			
		various			
		methods			
		methous			
9	1.0	1,,	10		+
y	10	11	12	13	14
No	Two Years	1. 50% by	Promotion from	Chairman-Additional	Not Applicable
	for Direct	Direct	Nursing	Director/Dy Medical	
	Recruitment	Recruitment	Orderly/Stretcher	Superintendent/Medical	
	only		Bearer/Attendant with	Superintendent-ESI	
	1	2. 50% by	six years regular	Hospital.	
		Promotion		ANOSPILAI,	
		failing which	service for matriculates	Member-Joint Director	
	1	by Direct	and eight years	/Dy.Director/Assistant	
	1	Recruitment	regular service for	Director	· · ·
	1		non-matriculates.	Director	
			Note : Where juniors who	Member-Medical Officer	
	1		have completed their	preferably from specialty	
		1	qualifying or eligibility		1 1
	1		service are being	concerned (outside	
			considered for promotion,	nominee from	
	l		their seniors would also	Central/State	
			be considered provided	Government)	
			they are not short of the		1
			requisite qualifying or		
·- · ·		} .	eligibility service by more		
			than half of such		
			qualifying or eligibility		
			service or two years,		
			whichever is less, and		
			have successfully		
		Į. Į	completed their probation		
			period for promotion to		
			the next higher grade along with their juniors		·
			who have already		
			who have already completed such		
			who have aiready completed such qualifying or eligibility	•	
Not	Two Years		who have already completed such qualifying or eligibility service.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Two Years for Direct	100% by	who have aiready completed such qualifying or eligibility	Chairman-Additional	Not Applicable
	for Direct	100% by Promotion	who have already completed such qualifying or eligibility service.	Director/Dy. Medical	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical	Not Applicable
	for Direct	100% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital.	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director	Not Applicable
Not Applicable	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates in deven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant/CSR Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director (Dy. Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates in deven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates in diseven years regular service for matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five ycars regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion,	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for seniors.	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors woold also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service are to be the provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years,	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant/CSR Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, the would be would be would be would be would be would be would be would be woul	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying completed their probation period for promotion to the next higher grade along with	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their sinors who have	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would disc be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would disc be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would disc be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would disc be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable
	for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from O.T. Assistant/CSR Assistant with five years regular service for matriculates and seven years regular service for matriculates and seven years regular service for non matriculates in either or both grades Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, their seniors would disc be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant Director Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	Not Applicable

20-79 GI/2011

[ <b></b>	10	1					
Name of the post	Number of posts	Classifications	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension)Rules, 172	Age limit for direct Recruitment	Educational and other qualifications required for Direc Recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Sr. O.T. Technician	07*(2008) *Subject to variation depending	Group-"C" Non- Ministerial	Pay Band-1, Rs 5200- 20200	Non-Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
	upon workload.		Grade Pay - 2800				
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·, i m							
	•						χ
	·						
2.Lab	122						··· · · · ·
2. Lab Issistant	*(2008) *Subject to variation depending	<b>Group-"C"</b> Non- Ministerial	Pay Band -1 Rs 5200- 20200 Grade Pay 2000	Non-selection	n Not Applicable	Not exceeding 32 Years (relaxable upto 37 years in case of Government	Senior Secondary/10+2 or equivalent qualification with Diploma in MLT from an Insti- recognized by the AICTE.
	workload					Servant and Employees of ESI Corporation)	Note 1: Qualifications are relaxable the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.
				-		Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of	authority in the case of candidates
						applications from candidates in India and not the closing	belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes if at any stage of Selection the competent authority is the opinion that sufficient number
		•				date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh,	candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill s the vacancies reserved for them. (in case of direct recruitmentuiteme
						Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of	
		-				Chamba, District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadeep)	

## PART III--SEC. 4]

# THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

	1	1		1	<u>المحمد المحمد المحم</u>
Whether age	Period of	Method of	In case of Recruitment	If a Departmental	Circumstances in
and	Probation if	Recruitment	by	Promotion Committee	which Union Public
educational	any	whether by	promotion/deputation/	exists what is its	- D
	1 <sup>m</sup> ,				Service Commission
ualifications		direct	absorption grade from	composition	to be consulted in
prescribed for	]]	Recruitment	which promotion,		making Recruitment
direct		or by			inaking recordinient
	íl –		deputation, absorption		
Recruitment	]]	promotion or	to be made		11
will apply m	11	by	1		1
the case of		deputation/ab			
promotees	([	sorption and			
		percentage of			1
	ł.	vacancies to			11
	li				1
	11	be filled up			H ·
		by various	11		
		methods			
		methous			
	I				
, .	10		[·•		]
·	10	11	12	13	14
			1. State 1.		
Vot	Not	100% by	Promotion from	Chairman-Additional	Not Applicable
Applicable	Applicable				And Applicable
pprication	Applicable	Promotion	O.T Technician /CSR	Director/Dy Medical	
				Superintendent/Medical	
		1	Technician with five	Superintendent-ESI	
			years service in either		
		1		Hospital.	
			or both grades	1. 1. Ng	1
	1 1	1 1	New Dr.	Member- Joint Director	1
1	1 1	1 . 1	Note : Where juniors who	/Dy.Director/ Assistant	
	+ l		have completed their		
	1	1	qualifying or eligibility	Director	
			service are being		1 ·
	1 1		considered for promotion,	Member-Medical	1
1		II		Officer preferably from -	
	1	1	their seniors would also		
-	·		be considered provided	specialty concerned	l de la companya de la compan
			they are not short of the	(outside nominee from	
			requisite qualifying or	Central/State	
			eligibility service by more		1
	1. 1		than half of such	Government)	1
+			qualifying or eligibility	· · · · · · · · · · · ·	
			service or two years,		
			whichever is less, and		1
			have successfully		
				· [	
			completed their probation	ſ	
			period for promotion to		
1			the next higher grade	-	
				a 10	
			along with their juniors 11	• •	
			along with their juniors	٩	
1			who have already	•	
			who have already completed such qualifying	•	
			who have already		
			who have already completed such qualifying		
			who have already completed such qualifying	•	
			who have already completed such qualifying	•	
			who have already completed such qualifying	•	
			who have already completed such qualifying or eligibility service.	• •	
No	Two Years	1. 50% by	who have already completed such qualifying or eligibility service.	Chairman-Additional	Not Applicable
No No			who have already completed such qualifying or eligibility service.	Chairman-Additional	Not Applicable
No No	for Direct	Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service.	Director/Dy. Medical	Not Applicable
No			who have already completed such qualifying or eligibility service.	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical	Not Applicable
Ň	for Direct	Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service.	Director/Dy. Medical	Not Applicable
No Viewski zakovalski zakovalski zakovalski zakovalski zakovalski zakovalski zakovalski zakovalski zakovalski z	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital	Not Applicable
/2 /2	for Direct	Direct Recruitment	who have already completed such qualifying or eligibility service.	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital	Not Applicable
1/2	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital.	Not Applicable
12 N	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital Member- Joint Director	Not Applicable
N	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital.	Not Applicable
/No	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital Member- Joint Director	Not Applicable
1/2	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant	Not Applicable
/2 X	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy.Director/Assistant	
No.	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non-	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer	
1/2	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty	
12	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates.	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside	
N	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note : Where Jugiors who	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty	
No	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Janiors who have completed their	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from	
N2	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where hajors who have completed their qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
No l	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note : Where Indiors who have completed Dair qualifying or eligibility service are being	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from	
	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where hajors who have completed their qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
1/2	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion,	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
No -	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where haiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where hadiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion; their seniors would also be considered provided	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
No -	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
No	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where hajors who have completed their considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
/2	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Jugiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered for of the requisite qualifying or eligibility service by more	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
ÍN A	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion- their seniors would also be considered for provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more eligibility service by more	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
1/2	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where hairs who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
ÍNO -	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Janiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for from they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service are two years,	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
Ż	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where hairs who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
Ň	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Jugiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion- their seniors would also be considered for promotion- their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
Ż	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where hairs who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for ground also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such whichever is less, and have successfully	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
No	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Janiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service are two years, whichever is less, and have successfully completed their probation	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
1/2	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Jugiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion- their seniors would also be considered for promotion- their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
No	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Janiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion, they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service are two years, whichever is less, and have successfully completed their probation	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where hadiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where hujors who have completed heir qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered for promotion the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Jugiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion their seniors would also be considered for gromotion their seniors would also be considered for gromotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Jugiors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion their seniors would also be considered for gromotion their seniors would also be considered for gromotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	
Ň	for Direct	Direct Recruitment 2. 50% by Promotion failing which by Direct	who have already completed such qualifying or eligibility service. Promotion from Nursing Orderly/Stretcher Bearer/Attendant with six years regular service for matriculate and bight years regular service for non- matriculate and bight years regular service for non- matriculates. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital. Member- Joint Director /Dy. Director/Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State	